



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 1983/भाद्र 22, 1905

No. 341]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 1983/BHADRA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1983

स.का.मि. 704(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधि-
नियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती
है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :—(1) इस
स्कीम का संक्षिप्त नाम कम्पनी निक्षेप (आयकर
पर अधिभार) स्कीम, 1983 है ।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
- (3) यह उन सभी कम्पनियों को जिनको आयकर अधि-
नियम, 1961 (1961 का 43) के उपबन्ध लागू
होने हैं; लागू होती है ।

2. परिभाषाएँ :—(1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ
से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “साता” से इस स्कीम के अधीन कोई निक्षेप
साता अभिप्रेत है;

(ख) “निक्षेप कार्यालय” से अभिप्रेत है —

(1) किसी ऐसी दशा में जिसमें इस स्कीम के
अधीन निक्षेप किसी ऐसे स्थान पर किया
जाता है जहाँ विकास बैंक की कोई शाखा
या कार्यालय स्थित है, ऐसी शाखा या
कार्यालय ; और

(2) किसी अन्य दशा में, भारतीय स्टेट बैंक
अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के
गठित भारतीय स्टेट बैंक की ऐसी कोई
शाखा या कोई कार्यालय जो इसके परि-
शिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट है ;

(ग) “विकास बैंक” से भारतीय औद्योगिक विकास
बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के

अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अभिप्रेत है ;

(घ) "आयकर अधिनियम" से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ङ) "पैरा" से इस स्कीम का पैरा अभिप्रेत है और "उप-पैरा" से उस पैरा का जिसमें वह आता है, उप पैरा अभिप्रेत है ;

(च) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और आयकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

(2) इस स्कीम में "प्ररूपों" के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इसके परिच्छेद 2 में उपदर्शित प्ररूपों के प्रति निर्देश हैं ।

3. निक्षेप कब और कैसे किया जाएगा—(1) दिना अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 2 की उपधारा (5) के दूसरे परन्तुक के अधीन आयकर पर अधिभार की रकम के आधे के संदाय के बदले में निक्षेप, कंपनी द्वारा उसकी दशा में "अग्रिम कर" की अंतिम किस्त के शोध्य होने से पहले किसी भी समय किया जा सकेगा :

परन्तु किसी ऐसी दशा में जहां अग्रिम कर का प्राक्कलन देने की तारीख आयकर अधिनियम की धारा 209-क की उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन आयकर द्वारा बढ़ाई जाती है वहां ऐसा निक्षेप, उस परिमाण तक जितना तक वह इस प्रकार बढ़ाई गई तारीख से पहले संदत्त किए जाने के लिए अनुज्ञात अग्रिम कर की रकम से संबंधित माने जा सकने वाले अधिभार की रकम के आधे के बदले में किया जाता है, ऐसी बढ़ाई गई तारीख को या उससे पहले किया जा सकेगा ।

(2) वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 2 की उपधारा (7) के अधीन आयकर पर अधिभार की रकम के आधे के संदाय के बदले में निक्षेप 1 अप्रैल, 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी द्वारा किया जा सकेगा ।

(3) उप पैरा (1) या उप पैरा (2) के अधीन निक्षेप या एक तो एकमुस्त राशि में या किस्तों में किया जा जा सकेगा ।

4. निक्षेप की रीति—(1) इस स्कीम के अधीन पहली बार निक्षेप करने वाली प्रत्येक कंपनी प्ररूप क में या उससे मिलते-जुलते रूप में, उपपैरा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से संदेय निक्षेप की रकम सहित निक्षेप कार्यालय को आवेदन करेगी ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, निक्षेप कार्यालय कंपनी के नाम एक खाता खोलेगा ।

(3) प्रत्येक पश्चात्तयती निक्षेप ऐसे स्थान पर जहां ऐसा कार्यालय स्थित है, किसी बैंक पर ऐसे कार्यालय के पक्ष में लिखे गए क्रस चेक द्वारा उस कार्यालय में किया जाएगा जिसमें खाता है :

परन्तु जहां ऐसा निक्षेप, पैरा 2 के उपपैरा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (2) में निर्दिष्ट किसी निक्षेप कार्यालय में किया जाता है वहां ऐसा निक्षेप नकद रूप में किया जा सकता है ।

(4) निक्षेप कार्यालय द्वारा प्ररूप ख में या उससे मिलते-जुलते प्ररूप में जारी की गई रसीद प्रत्येक निक्षेप का साक्ष्य होगी ।

(5) निक्षेप कार्यालय, यथास्थिति, 1 अप्रैल, 1982 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर या ऐसी बढ़ाई गई तारीख को जो पैरा 3 के उपपैरा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट है, समाप्त होने वाली अवधि की समाप्ति पर, प्ररूप ग में या उससे मिलते-जुलते प्ररूप में कंपनी को, यथास्थिति, उक्त वित्तीय वर्ष के या बढ़ाई गई तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए निक्षेपों की रकम को दर्शित करने वाला एक प्रमाणपत्र भी जारी करेगा ।

5. निक्षेप की वापस सवत—(1) जहां पैरा 3 के उपपैरा (1) के अधीन कंपनी द्वारा कोई निक्षेप किया जाता है वहां पैरा 4 के उपपैरा (4) में निर्दिष्ट, यथास्थिति या रसीद, यथास्थिति, उस तारीख से जिसके अग्रिम कर की अंतिम किस्त कंपनी की दशा में शोध्य होती है, एक सप्ताह के भीतर ऐसी बढ़ाई गई तारीख से जो पैरा 3 के उपपैरा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट है, एक सप्ताह के भीतर आयकर अधिकारी को कंपनी द्वारा भेजी जाएगी ।

(2) जहां कंपनी द्वारा कोई निक्षेप पैरा 3 के उपपैरा (2) के अधीन किया जाता है वहां पैरा 4 के उपपैरा (4) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, रसीद या रसीद आय की विवरणी सहित आयकर अधिकारी को कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 1984 को प्रारम्भ होने वाली निर्धारण वर्ष के लिए भेजी जाएगी ।

(3) आयकर अधिकारी सत्यापन के प्रयोजनों के लिए कंपनी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निक्षेप कार्यालय द्वारा उसे जारी किया गया प्रमाणपत्र पेश करे ।

6. खातों का अंतरण—कंपनी अपने खाते के, विकास बैंक की किसी शाखा या कार्यालय से उसी बैंक की किसी अन्य शाखा या कार्यालय को या पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (ग) के उपखंड (2) में निर्दिष्ट किसी बैंक की किसी शाखा या कार्यालय में उसी बैंक की किसी अन्य शाखा या कार्यालय को अंतरण के लिए आवेदन कर सकेगी ।

7. दूसरे प्रमाणपत्र का जारी किया जाना—(1) यदि निक्षेप कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र खो जाता है तो निक्षेप कार्यालय उस निमित्त उसको किए गए आवेदन पर, उसकी दूसरी प्रति जारी कर सकेगा ।

(2) यदि पैरा 4 के उपपैरा (4) में निर्दिष्ट रसीद खो जाती है या नष्ट हो जाती है तो निक्षेप कार्यालय इस निमित्त उसको किए गए आवेदन पर उसकी दूसरी प्रति देगा ।

8. ब्याज—इस स्कीम के अधीन किए गए निक्षेप पर माद्रे मात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज होगा जो उस

मास के जिसमें निक्षेप की रकम कम्पनी के खाते में जमा की जाती है, ठीक अगले मास के प्रथम दिन से उस मास के जिसमें निक्षेप की रकम प्रतिगृह्य हो जाती है, ठीक पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) संगणित की जाएगी।

9. प्रतिगृह्य—(1) पैरा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निक्षेप की रकम उस पर व्याज सहित 3 अक्टूबर, 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पांच वर्ष की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् उस निक्षेप कार्यालय द्वारा प्रतिगृह्य होगी जिसमें कम्पनी का खाता है।

(2) निक्षेप का प्रतिगृह्य केवल प्रमाणपत्र या पेश किए जाने पर ही किया जाएगा जिसमें मास प्रमाण पत्र में या उससे मिलते-जुलते प्रमाण में आवेदन दर्ज किया जाएगा।

(3) जहां समामेलन की किसी स्कीम में, समामेलन कम्पनी निक्षेप के उस पर व्याज सहित प्राप्त करने का अधिकार को समामेलन कम्पनी को सम्मन्देशित करती है या अन्यथा अतिरिक्त करती है वहां निक्षेप उस पर व्याज सहित समामेलन कम्पनी को प्रतिगृह्य होगा।

10. गमापनाधीन कम्पनी—(1) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी कम्पनी का समापक है जिसका परिणामापन, चाहे न्यायालय के आदेशों के अधीन या अन्यथा, किया जा रहा है, उपपैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रमाण पत्र या उससे मिलते-जुलते प्रमाण में निक्षेप के उस पर व्याज सहित पूर्वोक्त प्रतिगृह्य के लिए विकास बैंक को आवेदन कर सकता यदि उसका यह विचार है कि कम्पनी के कार्यकलापों का पैरा 9 के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले पूर्ण रूप से परिणामापन होना सम्भव है।

(2) उपपैरा (1) के अधीन आवेदन केवल तभी दिया जाएगा जब समापक का यह विचार है कि कम्पनी के कार्यकलापों का आवेदन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर पूर्ण रूप से परिणामापन होना सम्भव है।

(3) यदि विकास बैंक का यह समाधान हा जाता है कि, कम्पनी के कार्यकलापों का उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट छह मास की अवधि के भीतर पूर्ण रूप से परिणामापन होना सम्भव है और पूर्वोक्त छह मास की अवधि का उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले अंत हो जाएगा तो वह सम्बन्धित निक्षेप कार्यालय से गृह्य उपस्था कर सकता है, वह निक्षेप की रकम का उस पर शोध्य व्याज सहित समापक को तुरन्त प्रतिगृह्य कर और ऐसे आदेश की एक प्रति समापक को पठाई करेगा।

(4) समापक द्वारा विकास बैंक के आदेश की प्रति के पेश किए जाने पर निक्षेप कार्यालय निक्षेप का उस पर देय व्याज सहित तुरन्त प्रतिगृह्य करेगा।

परिशिष्ट 1

कम्पनी निक्षेप (आय-कर पर अधिभार) स्कीम 1983 के पैरा 2(1) (ख) (ii) में निर्दिष्ट भारतीय स्टेट बैंक के शाखाएं और कार्यालय

I. अदमान और निम्नोच्चारीय

भारतीय स्टेट बैंक
अबुधबीन बाजार,
पोर्ट ब्लेयर
जिला अदमान।

II. अधि प्रदेश

1. भारतीय स्टेट बैंक,
विजयवाड़ा,
जिला कृष्णा।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
कुर्नुल,
जिला कुर्नुल।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
तिरुपति,
जिला चित्तूर।
4. भारतीय स्टेट बैंक,
"सूर्यबाग"
अल्लुरी, सीतारामराजू रोड,
विशाखापटनम-4

III. असम

1. भारतीय स्टेट बैंक,
जोरहाट,
जिला शिवसागर।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
डिब्रूगढ़।

IV बिहार

1. भारतीय स्टेट बैंक,
बोकारो औद्योगिक क्षेत्र,
जिला धनबाद।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
जमशेदपुर,
जिला सिन्धुभूम।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
रांची,
जिला रांची।

V गोवा दमन और दीव

भारतीय स्टेट बैंक,
पणजा मोचवालय,
पणजी।

VI. गुजरात

1. भारतीय स्टेट बैंक,
वडोदरा,
जिला वडोदरा ।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
भड़ौच,
जिला भड़ौच ।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
जवाहर मार्ग,
पी०बी०सं० 174,
राजकोट-1
4. भारतीय स्टेट बैंक,
हरीकमल भवन,
मोर्त टाकी, ज के पास,
बेगम पाड़ा पी० बी० सं० 13,
सुरत-1

VII. हरियाणा

1. भारतीय स्टेट बैंक,
अम्बाला सिटी,
अम्बाला ।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
फरीदाबाद,
जिला फरीदाबाद

III. जम्मू कश्मीर

1. भारतीय स्टेट बैंक,
श्री नगर,
जिला श्रीनगर ।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
अनन्त नाग,
जिला अनन्त नाग ।

IX. कर्नाटक

1. भारतीय स्टेट बैंक,
बेलगांव,
जिला बेलगांव ।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी० सं० 90,
मंगलूर—1
जिला साउथ कन्नरा ।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
रायचूर,
जिला रायचूर

X. केरल

1. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी०सं० 9,
जिला मालाबार,
कालीकट—1
2. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी०सं० 175,
ब्रिगप माइकेल,
सेमोरियल भवन,
कै०के० मार्ग,
जिला कोट्टायम ।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी०सं० 14,
त्रिवेंद्रम—1 ।

XI. मध्य प्रदेश

1. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी० सं० 12,
लस्कर, खालियर ।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी०सं० 65,
इंदौर सिटी,
इंदौर ।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी० सं० 230,
जबलपुर सिटी ।
4. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी० सं० 29/76,
रायपुर ।

XII. महाराष्ट्र

1. भारतीय स्टेट बैंक,
क्रांति चौक,
औरंगाबाद ।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
सेंट्रल एवेन्यू मार्ग,
नागपुर ।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
पुणे सिटी,
पुणे ।

XIII. मणिपुर

1. भारतीय स्टेट बैंक,
इम्फाल

14. मेघालय

भारतीय स्टेट बैंक,
बड़ा बाजार,
शिलांग ।

15. नागालैंड

भारतीय स्टेट बैंक,
कोहिमा ।

16. उड़ीसा

1. भारतीय स्टेट बैंक,
कलकटेरेट कंपाउंड,
काटक-2
2. भारतीय स्टेट बैंक,
राउरकेला,
जिला सुन्दरगढ़ ।

17. पांडिचेरी

भारतीय स्टेट बैंक,
पांडिचेरी ।

18. पंजाब

1. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी० सं० 22,
अमृतसर ।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी० सं० 4,
लुधियाना ।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
सिविल लाइंस,
पी०बी० सं० 1,
जलंधर,
जिला जालंधर ।

19. राजस्थान

1. भारतीय स्टेट बैंक,
जोधपुर ।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
एल०आई०सी० भवन,
कोटा ।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
उदयपुर ।

20. सिक्किम

भारतीय स्टेट बैंक,
गंगटोक ।

21. तमिलनाडु

1. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी० सं० 1700,
कोयम्बतूर-18
2. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी० सं० 4,
वेस्ट बैली स्ट्रीट,
मदुरै-625001
3. भारतीय स्टेट बैंक,
सलेम ।

22. त्रिपुरा

भारतीय स्टेट बैंक,
अगरतला ।

23. उत्तर प्रदेश

1. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी० सं० 22,
इलाहाबाद ।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
बरेली ।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
देहरादून ।
4. भारतीय स्टेट बैंक,
गाजियाबाद ।
5. भारतीय स्टेट बैंक,
बांस फाटक,
वाराणसी सिटी,
वाराणसी ।

24. पश्चिमी बंगाल

1. भारतीय स्टेट बैंक,
बेनाचिटी बाजार,
दुर्गापुर ।
2. भारतीय स्टेट बैंक,
पी०बी० सं० 19,
हावड़ा ।
3. भारतीय स्टेट बैंक,
दार्जिलिंग ।

परिशिष्ट 2

प्ररूप क

कम्पनी निक्षेप (श्राय-कर पर अधिभार) स्कीम 1983
के अधीन निक्षेप खाता खोलने के लिए आवेदन

[कम्पनी निक्षेप (आय-कर पर अधिभार) स्कीम, 1983 का पैरा 4(1) देखिए]

सेवा में,

.....
.....
.....

में,

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) (कम्पनी का नाम और पता)

..... होने के नाने का

(पदाभिधान)

उक्त कम्पनी के नाम में कम्पनी निक्षेप (आय-कर पर अधिभार) स्कीम, 1983 के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूँ और नकद रूप में* बैंक द्वारा इसके साथ

(अंकों में)

(केवल रूप) देता हूँ ।

(शब्दों में)

कम्पनी का स्थायी खाता सं० है ।

***

हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

टिप्पण (1) *उसे काट दें जो लागू नहीं होता ।

(2) **आवेदन पर कम्पनी के मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । जहां निक्षेप करने वाली कम्पनी समाप्तोन्नी है वहां आवेदन पर समाप्तक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।

(निक्षेप कार्यालय द्वारा भरे जाने के लिए)

कम्पनी निक्षेप खाता सं० के अधीन रूप से को खाता खोल दिया गया है ।

"

भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

निक्षेप करने वाली कम्पनी के मुख्य अधिकारी/समाप्तक के नमूने के हस्ताक्षर

प्ररूप रख

कम्पनी निक्षेप (आय-कर पर अधिभार) स्कीम, 1983 के अधीन

निक्षेप के लिए रसीद

[कम्पनी निक्षेप (आय-कर पर अधिभार) स्कीम, 1983 का पैरा 4(4) देखिए]

दो प्रतियों में जारी किए जाने के लिए

निक्षेप कार्यालय का नाम

रसीद सं०

(कम्पनी का नाम और पता)

..... से जिसका स्थायी

(कम्पनी का नाम और पता)

खाता सं० है, कम्पनी निक्षेप खाता सं० में जमा करने के लिए, रूप

(अंकों में)

(केवल रूप) प्राप्त हुए ।

(शब्दों में)

भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

मुद्रा

टिप्पण :— इस रसीद को सावधानी पूर्वक रखा जाए और कम्पनी द्वारा आय कर अधिकारी को निम्न-प्रकार भेजा जाए—

(i) उस दशा में जहां निक्षेप वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 2 की उपधारा (5) के अधीन किया गया है वहां उस तारीख से जिसको उसकी दशा में अग्रिम कर की अन्तिम किस्त शोध्य है, यथास्थिति एक सप्ताह के भीतर या ऐसी बड़ाई गई तारीख से पैरा 3 के उपपैरा (1) के परन्तुक में निबिष्ट है एक सप्ताह के भीतर; और

(ii) उस दशा में जहां निक्षेप वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 2 की उपधारा (7) के अधीन किया गया है वहां निर्धारण वर्ष 1984-85 के लिए आय की विवरणी सहित ।

प्ररूप ग

कम्पनी निक्षेप (आयकर अधिभार) स्कीम, 1983 के अधीन
निक्षेप के लिए प्रमाणपत्र

[कम्पनी निक्षेप (आयकर अधिभार) स्कीम, 1983 का
पैरा 4(5) देखिए]

निक्षेप कार्यालय का नाम

प्रमाणपत्र संख्यांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स
..... (कम्पनी का नाम और पता) ने,
जिसका खाता सं० है, कम्पनी निक्षेप (आय-
कर अधिभार) स्कीम, 1983 के अधीन वित्तीय वर्ष 1983-
84 के ऐसी बढाई गई तारीख को जो स्कीम के पैरा (3)
के उपपैरा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट है, समाप्त होने
वाली अवधि के दौरान, निम्नलिखित निक्षेप किए :-

| निक्षेप की तारीख | निक्षेप की रकम |
|------------------|----------------|
| | |
| | |
| | |

पूर्वोक्त रकमों को कम्पनी के निक्षेप खाता सं० में जमा
कर दिया गया है।

(भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख

स्थान

मुद्रा

टिप्पण :- (1) "ऐसी बढाई गई तारीख" शब्दों से प्रारंभ
होने वाले और "अवधि" शब्द से समाप्त होने वाले अंश
को तब काटा जा सकेगा जब वह लागू नहीं होता है।

(2) यह प्रमाणपत्र, आयकर अधिकारी द्वारा सत्यापित
किए जाने के लिए सावधानी पूर्वक रखा जाए।

(3) इस प्रमाणपत्र को, निक्षेप के संदाय के प्रयोजनों के
लिए निक्षेप कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए गा।

प्ररूप घ

कम्पनी निक्षेप (आयकर पर अधिभार) स्कीम, 1983 के
अधीन निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिए आवेदन

[कम्पनी निक्षेप (आयकर पर अधिभार) स्कीम, 1983 का
पैरा 9 (2) देखिए]

सेवा में,

.....

.....

.....

1. मैं

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) (कम्पनी का नाम और पता)
का होने के नाते उक्त कम्पनी के नाम
(पदाभिधान)

में कम्पनी निक्षेप खाता सं० के जमा खाते में
शोध्य रकम उस पर शोध्य ब्याज सहित निकालना चाहता हूँ।
प्रमाणपत्र संलग्न है।

* 2. मैं

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) (समामेलित कम्पनी का नाम
और पता)

..... का होने के नाते
(पदाभिधान)

..... के नाम में कम्पनी निक्षेप खाता
(समामेलित कम्पनी का नाम और पता)

सं० के जमा खाते में शोध्य रकम
उस पर शोध्य ब्याज सहित निकालना चाहता हूँ। प्रमाणपत्र
संलग्न है।

** 3. मैं,

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) (कम्पनी का नाम और पता)
का समापक होने के नाते उक्त कम्पनी के नाम में कम्पनी
निक्षेप खाता सं० के जमा खाते में शोध्य
रकम उस पर शोध्य ब्याज सहित निकालना चाहता हूँ।
प्रमाणपत्र संलग्न है।

*

हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

टिप्पण :- * (1) यह केवल तभी भरा जाएगा जब आवेदन
समामेलित कम्पनी द्वारा किए गए निक्षेप के
प्रतिसंदाय के लिए समामेलित कम्पनी
की ओर से किया जाता है। प्रति-
संदाय प्राप्त करने के लिए त्कदार होने
की बाबत सबूत आवेदन के साथ ही
दिया जाएगा।

** (2) यह केवल तभी करा जाएगा जब आवेदन ऐसी कम्पनी की ओर से किया जाता है जो समापनाधीन है।

* (3) आवेदन पर कम्पनी के मुख्य अधिकारी/सम.म.लित कम्पनी के मुख्य अधिकारी/कम्पनी के समापक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

प्रारूप ५

कम्पनी निक्षेप (आय-कर पर अधिभार) स्कीम, 1983 के अधीन निक्षेप के पूर्वोक्त प्रतिसंदाय के लिए समापक द्वारा आवेदन

[कम्पनी निक्षेप (आय-कर पर अधिभार) स्कीम, 1983 का पैरा 10(1) देखिए]

सेवा में,

.....
.....
.....

मैं,

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) (कम्पनी का नाम और पता)

का समापक होने के नाते घोषणा करता हूँ कि उक्त कम्पनी के कार्यकलापों का तारीख तक पूर्ण रूप से परिसमापन हो जाना सम्भाव्य है। उक्त कम्पनी के कार्यकलापों के परिसमापन में की गई प्रगति का और उस अग्रिम कार्यवाही का जो इस निमित्त की जानी है, उल्लेख करते वाला एक टिप्पण संलग्न है। कम्पनी द्वारा तारीख को इसकी परिपक्वता पर किए गए निक्षेप के प्रतिसंदाय से कम्पनी के कार्यकलापों के परिसमापन में विलम्ब होगा इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि निक्षेप का उस पर शोध व्यय सहित तुरन्त प्रतिसंदाय किया जाए।

.....
हस्ताक्षर

तारीख पता

[सं० 5385/का० सं० 133(40)/83 टी० पी० एल०]

एम० एस० उन्नि नायर, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

Income-tax

New Delhi, the 14th Sept., 1983

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 2 of the Finance

Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government hereby frames the following Scheme, namely:—

1. Short title, commencement and application.—

(1) This Scheme may be called the Companies Deposits (Surcharge on Income-tax) Scheme, 1983.

(2) It shall come into force at once.

(3) It applies to all companies to which the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) apply.

2. Definitions.—

(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires, —

(a) “account” means a Deposit Account under this Scheme;

(b) “deposit office” means —

(i) in a case where the deposit under this Scheme is made at any place where a branch or office of the Development Bank is situated, such branch or office; and

(ii) in any other case, a branch or an office of the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) specified in Appendix—I, hereto.

(c) “Development Bank” means the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964);

(d) “Income-tax Act” means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(e) “paragraph” means a paragraph of this Scheme and “sub-paragraph” means a sub-paragraph of the paragraph in which it occurs;

(f) all other words and expressions used herein but not defined and in the Income-tax Act shall have the meanings, respectively, assigned to them in that Act.

(2) All references to “Forms” in this Scheme shall be construed as references to the forms set out in Appendix II hereto.

3. Deposit when and how to be made.—

(1) A deposit in lieu of payment of one-half of the amount of surcharge on income-tax under the second proviso to sub-section (5) section 2 of the Finance

Act, 1983 (11 of 1983), may be made by a company at any time before the last instalment of "advance tax" is due in its case ;

Provided that in a case where the date for furnishing the estimate of "advance tax" is extended by the Commissioner under the proviso to sub-section (4) of section 209A of the Income-tax Act, such deposit, to the extent it is made in lieu of one-half of the amount of surcharge relatable to the amount of advance tax allowed to be paid before the date so extended, may be made on or before such extended date.

(2) A deposit in lieu of payment of one-half of the amount of surcharge on income-tax under sub-section (7) of section 2 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), may be made by a company at any time during the financial year commencing on the 1st day of April, 1983.

(3) A deposit under sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2) may be made either in one lump sum or in instalments.

4. Manner of deposit.—

(1) Every company making a deposit under this Scheme for the first time shall apply to the deposit office in Form A, or as near thereto as may be, together with the amount of deposit payable in the manner specified in sub-paragraph (3).

(2) On receipt of an application under sub-paragraph (1), the deposit office shall open an account in the name of the company.

(3) Every subsequent deposit shall be made into the deposit office at which the account stands by a crossed cheque drawn in favour of such office on a bank at the place where the office is situated :

Provided that where such deposit is made in a deposit office referred to in sub-clause (ii) of clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, such deposit may be made in cash.

(4) Every deposit shall be evidenced by a receipt issued in Form B, or as near thereto as may be, by the deposit office.

(5) The deposit office shall also issue, at the end of the financial year commencing on the 1st day of April, 1983, or, as the case may be, on the expiry of the period ending with the extended date referred to in the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 3, a certificate in Form C, or as near thereto as may be, to the company showing the amount of deposits made by it during the said financial year or, as the case may be, the period ending with the extended date.

734GI/83—2

5. Proof regarding deposit.—

(1) Where a deposit is made by a company under sub-paragraph (1) of paragraph 3, the receipt or as the case may be, the receipts referred to in sub-paragraph (4) of paragraph 4 shall be forwarded by the company to the Income-tax Officer within one week from the date on which the last instalment of advance tax is due in its case, or, as the case may be, within one week of the extended date referred to in the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 3.

(2) Where a deposit is made by a company under sub-paragraph (2) of paragraph 3, the receipt or as the case may be, the receipts referred to in sub-paragraph (4) of paragraph 4 shall be forwarded by the company to the Income-tax Officer along with the return of income for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1984.

(3) The Income-tax Officer may, for the purposes of verification, require the company to produce the certificate issued to it by the deposit office.

6. Transfer of accounts.—A company may apply for the transfer of its account from any branch or office at the Development Bank to any other branch or office of the same bank or from any branch or office of the bank referred to in sub-clause (ii) of clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 to any other branch or office of the same bank

7. Issue of duplicate certificate, etc.

(1) In the event of loss or destruction of a certificate issued by the deposit office, the deposit office may, on an application made to it in this behalf, issue a duplicate thereof.

(2) In the event of loss or destruction of the receipt referred to in sub-paragraph (4) of paragraph 4, the deposit office may, on an application made to it in this behalf, issue a duplicate thereof.

8. Interest.—The deposit made under this Scheme shall carry simple interest at the rate of 7.5 per cent, per annum to be calculated from the 1st day of the month immediately following the month in which the amount of deposit is credited to the account of the company to the last day of the month immediately preceeding the month in which the amount of the deposit becomes repayable (both days inclusive).

9. Repayment.—

(1) Subject to the provisions of paragraph 10, the amount of deposit together with interest

thereon shall be repayable immediately after the expiry of five years from the end of the financial year commencing on the 1st day of April, 1983 by the deposit office at which the account of the company stands.

(2) The repayment of a deposit shall be made only on production of the certificate accompanied by an application in Form D, or as near thereto as may be.

(3) Where, in a scheme of amalgamation, the amalgamating company assigns or otherwise transfers the right to receive the deposit together with interest thereon to the amalgamated company, the deposit together with interest thereon shall be repaid to the amalgamated company.

10. Company in Liquidation.—

(1) Any person who is the liquidator of any company which is being wound up, whether under the orders of a court or otherwise, may, subject to the provisions of sub-paragraph (2), make an application to the Development Bank in Form E, or as near thereto as may be, for earlier repayment of the deposit together with interest thereon, if he considers that the affairs of the company are likely to be fully wound up before the expiry of the period specified in sub-paragraph (1) of paragraph 9.

(2) An application under sub-paragraph (1) shall be made only if the liquidator considers that the affairs of the company are likely to be fully wound up within a period of six months from the date of the application.

(3) If the Development Bank is satisfied that the affairs of the company are likely to be fully wound up within the period of six months specified in sub-paragraph (2) and that the period of six months aforesaid shall end before the expiry of the period referred to in sub-paragraph (1), it may make an order in writing requiring the deposit office concerned to forthwith repay the amount of the deposit together with interest due thereon to the liquidator and shall endorse a copy of such order to the liquidator.

(4) On production of the copy of the order of the Development Bank by the liquidator, the deposit office shall forthwith repay the deposit with interest due thereon.

APPENDIX-I

Branches and offices of the State Bank of India, referred to in paragraph 2(1)(b)(ii) of the Companies Deposits (Surcharge on Income-tax) Scheme, 1983.

I. ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

State Bank of India,
Aberdeen Bazar,
Port Blair,
Andaman District.

II. ANDHRA PRADESH

1. State Bank of India,
Vijayavada,
Krishna District.
2. State Bank of India,
Kurnool,
Kurnool District.
3. State Bank of India,
Tirupati,
Chittoor District.
4. State Bank of India,
"Suryabagh",
Alluri, Seetharamaraju Road,
Vishakapatnam-4.

III. ASSAM

1. State Bank of India,
Jorhat,
Sibsagar District.
2. State Bank of India,
Dibrugarh.

IV. BIHAR

1. State Bank of India,
Bokaro Industrial Area,
Dhanbad District.
2. State Bank of India,
Jamshedpur,
Singbhum District.
3. State Bank of India,
Ranchi,
Ranchi District.

V. GOA, DAMAN AND DIU

State Bank of India,
Panaji Secretariat,
Panaji

VI. GUJARAT

1. State Bank of India,
Vadodra,
Vadodra District.
2. State Bank of India,
Bharuch,
Bharuch District.
3. State Bank of India,
Jawahar Road,
P.B. No. 174,
Rajkot-1.
4. State Bank of India,
Harikamal Building,
Near Moti Talkies,
Bogumpara,
P.B. No. 13,
Surat-1.

VII. HARYANA

1. State Bank of India,
Ambala City,
Ambala.
2. State Bank of India,
Faridabad,
Faridabad District.

VIII. JAMMU AND KASHMIR

1. State Bank of India,
Srinagar,
Srinagar District.
2. State Bank of India,
Anantnag,
Anantnag District.

IX. KARNATAKA

1. State Bank of India,
Belgaum,
Belgaum District.
2. State Bank of India,
P.B. No. 90,
Mangalore-1,
South Kanara District.
3. State Bank of India,
Raichur,
Raichur District.

X. KERALA

1. State Bank of India,
P.B. No. 9,
Malabar District,
Calicut-1.
2. State Bank of India,
P.B. No. 173,
Bishop Mikal,
Memorial Building,
K.K. Road,
Kottayam District.
3. State Bank of India,
P.B. No. 14,
Trivaniun-1.

XI. MADHYA PRADLSH.

1. State Bank of India,
P.B. No. 12,
Lashkar,
Gwalior.
2. State Bank of India,
P.B. No. 65,
Indore City,
Indore.
3. State Bank of India,
P.B. No. 230,
Jabalpur City.
4. State Bank of India,
P. B. No. 29/61,
Raipur.

XII. MAHARASHTRA

1. State Bank of India,
Kranti Chowk,
Aurangabad..
2. State Bank of India,
Central Avenue Road,
Nagpur.
3. State Bank of India,
Pune City,
Pune.

XIII. MANJUR

State Bank of India,
Imphal.

XIV. MEGHALAYA

State Bank of India,
Boro Bazar,
Shillong.

XV. NAGALAND

State Bank of India
Kohima.

XVI. ORISSA

1. State Bank of India,
Collectorate Compound,
Cuttack-2.
2. State Bank of India,
Rourkela,
Sundergarh District.

XVII. PONDICHERY

State Bank of India,
Pondicherry.

XVIII. PUNJAB

1. State Bank of India,
P.B. No. 22,
Amritsar.
2. State Bank of India,
P.B. No. 4,
Ludhiana.
3. State Bank of India,
Civil Lines,
P.B. No. 1,
Jullundar,
Jullundar District.

XIX. RAJASTHAN

1. State Bank of India,
Jodhpur.
2. State Bank of India,
L.I.C. Building,
Kota.
3. State Bank of India,
Udaipur.

XX. SIKKIM

State Bank of India,
Gangtok.

XXI. TAMIL NADU

1. State Bank of India,
P.B. No. 1700,
Coimbatore-18.
2. State Bank of India,
P.B. No. 4,
West Veli Street,
Madurai-625001.
3. State Bank of India,
Salem.

XXII. TRIPURA

State Bank of India,
Agartala.

XXIII. UTTAR PRADESH

1. State Bank of India,
P.B. No. 22,
Allahabad.

2. State Bank of India,
Bareilly.

3. State Bank of India,
Dehra Dun.

4. State Bank of India,
Ghazabad.

5. State Bank of India,
Bans Fatak,
Varanasi City,
Varanasi.

XXIV. WEST BENGAL

1. State Bank of India,
Benachity Bazar,
Durgapur.

2. State Bank of India,
P.B. No. 19,
Howrah.

3. State Bank of India,
Darjeeling.

APPENDIX II

FORM A

Application for opening a deposit account under the Companies Deposits (Surcharge on Income-tax) Scheme 1983.

[See paragraph 4(1) of the Companies Deposits (Surcharge on Income-tax) Scheme, 1983].

To

.....
.....
.....

I,, being the
(Name in block letters) (designation)

.....of.....

.....

(name and address of the company)

.....
hereby apply for opening an account under the Companies Deposit (Surcharge on Income-tax) Scheme, 1983 in the name of the said company and tender herewith Rs.

(figures)

(Rupees.....only) in

(in words)

cash*/cheque.

The Permanent account No. of the company is.....

.....

.....

Date.....

Signature**

Place.....

NOTES : — * (1) Delete what is not applicable.

** (2) The application should be signed by the principal officer of the company. Where the company making the deposit is under liquidation, the application should be signed by the liquidator.

(To be filled in by the deposit office)

The account has been opened on.....
with Rs.....under the Companies Deposit Account No.....

.....
Specimen signature of the Principal Officer/Liquidator of the company making the deposit
Signature of officer-in-charge.

FORM B

Receipt for the Deposit under the Companies Deposits (Surcharge on Income-Tax) Scheme, 1983

[See paragraph 4(4) of the Companies Deposits (Surcharge on Income-tax) Scheme, 1983.

To be issued in duplicate

Name of the deposit office.....

Receipt No.....

Received from.....

(Name and address of the company)

....., whose

Permanent Account No. is.....

Rs.....(Rupees.....only),

(in figures)

(in words)

for credit into Companies Deposit Account No.

Date.....

Signature of Officer-in-Charge

Place.....

SEAL

Note :—This receipt should be preserved carefully and forwarded by the company to the Income-tax Officer,—

(i) in a case where the deposit has been made under sub-section (5) of section 2 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), within one week from the date on which the last instalment of advance tax is due in its case or, as the case may be, within one week of the extended date referred to in the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 3; and

(ii) in a case where the deposit is made under sub-section (7) of section 2 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), alongwith the return of income for the assessment year 1984-85.

FORM C

Certificate for the Deposit under the Companies Deposits (Surcharge on Income-tax) Scheme, 1983

[See paragraph 4(5) of the Companies Deposits (Surcharge on Income-tax) Scheme, 1983]

Name of the deposit office.....

Certificate number.....

It is hereby certified that M/s.....

(name and address of the company), whose Permanent Account No. is.....has made the